



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 19.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.11.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रीता सिंह द्वारा गठित उ०नि० श्री सूरज प्रसाद मय हमराह कां. अरुण कुमार द्वारा अभियुक्त पूरन लाल पुत्र स्व० भग्गू राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम टुडर थाना महोबकंठ जिला महोबा को दुलारा मोड़ पर बनी पुलिया के पास वट्टद ग्राम टोलापातर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक थैले में 40 अदद क्वार्टर देशी ठेका (तराना) नाजायज शराब बरामद किया गया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 162/2021 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ०नि० सूरज प्रसाद
2. कां. अरुण कुमार

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

पूरन लाल पुत्र स्व० भग्गू राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम टुडर थाना महोबकंठ जनपद महोबा।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 19.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## **PRV - 1265 ने गंभीर अवस्था में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उनकी जान बचायी जा सकी...।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के सफल पर्यवेक्षण में यू०पी० 112 पुलिस द्वारा लगातार जनपद वासियों को तत्काल सहायता हेतु पुलिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके क्रम में दिनांक 18.11.2021 को थाना कुलपहाड़ अन्तर्गत पीआरवी 1265 टीम को कॉलर अशोक द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि बोलेरो व ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 7-8 लोग गम्भीर रूप से घायल हैं, कृपया जल्दी पहुंचे...

इस सूचना पर पीआरवी तत्काल 07 मिनट में घटनास्थल मिर्जापुर झांसी हाइवे ग्राम सुगिरा राघवेन्द्र ढाबा के पास पहुंच कर देखा कि बोलेरो और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया है जिससे उसमे सवार 09 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो रोड किनारे पड़े हुए हैं जिसमें से 03 व्यक्ति की हालत नाजुक थी जिन्हें पीआरवी कर्मियों ने तत्काल कंट्रोल रूम व थाने को सूचित करते हुए सभी घायलों को उठाकर पीआरवी द्वारा तथा थाने के सहयोग से अस्पताल मे भर्ती कराया तथा परिजनों को सूचित किया।

पीआरवी कर्मियों की तत्परता से सभी गंभीर घायल को समय से अस्पताल पहुंचाया गया जिसमें से 02 व्यक्तियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस के इस कार्य की सभी ने सराहना की तथा पीआरवी कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य के लिये शुभकामनायें दीं।

### **पीआरवी- 1265 का विवरण...**

यूपी 112 जनपद महोबा, थाना कबरई इवेंट संख्या - 09595।

### **पीआरवी स्टाफ**

कमांडर - उ०नि० राम औतार सिंह

सब कमांडर - का० शिवम कुमार पायलट - हो०गा० कंबोद सिंह।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 19.11.2021**

# महोबा पुलिस

**मीडिया सेल, महोबा**



## मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति किया जागरूक ।

उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान \*मिशन शक्ति फेज-3.0\* के तहत आज दिनांक 19.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर गठित प्रभारी महिला थाना उ0नि0 शिल्पी शुक्ला मय महिला थाना व एण्टी रोमियो टीम के साथ जागरूकता अभियान के तहत राठ चुंगी व कीरत सागर में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा मौजूद व्यक्तियों से भी महिलाओं एवं बालिकाओं को सहयोग प्रदान करने की अपील की गयी ।

जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुये बताया गया कि आपको अगर कोई भी परेशान करता है तो उसकी शिकायत आप अपने नजदीकी थाने में स्थापित '**महिला हेल्प डेस्क**' में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी से बिना डरे हुये अपनी बात पूरी गोपनीयता के साथ कर सकती हैं जिस पर तुरन्त कार्यवाही करते हुये आपकी समस्या का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जायेगा ।

इसके साथ ही टीमों द्वारा अन्य हेल्पलाइन नम्बरों वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकालीन सेवा यूपी - 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, साइबर अपराध हेल्पलाइन- 155260 एवं महिला कानूनों के साथ-साथ सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई ।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक:- 19.11.2021

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police